



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur September 05, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8836 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Nagar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Nagar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका मण्डल नगर (भरतपुर)

प्रपत्र क

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	सीमांकन का विवरण
1	1	रेलवे पार्सल घर से पूर्व की आरे चलकर दक्षिण की आबादी को सम्मिलित करते हुए रेलवे फाटक तक रेलवे फाटक से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए देवी सिंह गुर्जर के मकान तक देवी सिंह गुर्जर के मकान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी सम्मिलित करते हुए मिलान रेलवे पार्सल घर
2	2	अर्जुन के मकान से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए कुम्हारेडी वाले रोड होते हुए बन्ध तक बन्ध से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए अलीशेर के मकान तक अलीशेर के मकान से पूर्व की ओर चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए गनी के मकान तक गनी के मकान से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए रामेश्वर कुम्हारी के मकान तक रामेश्वर कुम्हारी से उत्तर की ओर चलकर छात्रावास एवं प्रजापति श्मशान को सम्मिलित करते हुए मक्खन की चक्की तक चक्की से उत्तर की ओर चल कर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए मिलान अर्जुन के

		मकान तक
3	3	सीकरी रोड पट्रोल पम्प के सामने जगडका वाले रास्ते मे चलकर गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, बाके बिहारी कॉलेज ननुआ जाटव को सम्मलित करते हुए उत्तरी समस्त भाग को शामिल कर नहर तक व नहर से तरफ उत्तर को नगला श्याम वाले रास्ते की ओर चलते हुए पूर्वी भाग अरावली एगो सर्विस व दीनू की मस्जिद से दीनू के मकान, घुटमल का मकान, को सम्मलित करते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए मौहम्मदीन का मकान मौहम्मदीन के मकान को सम्मलित करते हुए छात्रावास व प्रजापत को छोडते हुए अशोक तिवाडी को मकान अशोक तिवाडी से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मलित करते हुए मिलान सीकरी रोड पट्रोल के सामने जगडका वाले रास्ते मे चलकर गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल तक
4	4	पट्रोल पम्प के सामने जगडका वाले रास्ते से जगडका वाले रास्ते से ईदगाह की तरफ दक्षिण के भाग को शामिल करते हुए मिरासी ईदगाह, रतना की वाले को शामिल करते हुए नहर तक व नहर से अलवर रोड की ओर चलकर पप्पू की आरा मशीन व रमन भूराके वाले की दुकान व आरा मशीन सभी को शामिल कर वापसी कस्बे की ओर चलकर हरविलास मिस्त्री का मकान पंवार मैरिज होम, लक्ष्मण हॉस्पिटल व पट्रोल पम्पो को शामिल करते हुए स्वरूप लुहार की कॉलोनी को शामिल कर जगडका वाले रास्ते से पट्रोलपम्प के सामने तक
5	5	महेन्द्र चौधरी के मकान से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मलित करते हुए पंचायत समिति तक पंचायत समिति से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को सम्मलित करते हुए बबली की होटल तक बबली के होटल के पीछे से चलकर आबादी को शामिल करते हुए नहर तक नहर से पूर्व की ओर चलकर उत्तर की आबादी को सम्मलित करते हुए सोनी मन्दिर तक सोनी मन्दिर के पीछे से अलवर रोड की सभी दुकानो को सम्मलित करते हुए पंचायत समिति के कोने तक पंचायत समिति के कोने से पूरन सूबेदार के मकान तक पूरन सूबेदार के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए लल्लू कुम्हार के मकान को छोडते हुए रामधन के मकान को सम्मलित करते हुए सौरव के मकान सौरव के मकान से दक्षिण की ओर चलकर जमालू के मकान को शामिल करते हुए अशोक मूडौती वाले के नया मकान के सामने सुमन बाबू के, खखावली वाले सैनी, गजेन्द्र वकील के मकान को शामिल करते हुए मिलान महेन्द्र चौधरी के मकान तक
6	6	नन्द लाल के मकान से पश्चिम की ओर चलकर अलवर रोड के सहारे की दुकान को छोडकर सोनी के रमन रेत्ती मन्दिर होते हुए दिगम्बर तक दिगम्बर के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए रामअवतार किरोडी के मकान राम अवतार किरोडी के मकान के पीछे उत्तर की ओर चलकर समस्त पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए मस्जिद के पूर्व की चलकर समस्त दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए धनीराम कुम्हार के मकान तक धनीराम कुम्हार के मकान से समस्त पश्चिम आबादी को शामिल करते लल्लू कुम्हार के

		मकान को सम्मलित करते हुए रामजीलाल के मकान से मिलान नन्द लाल के मकान तक
7	7	विनोद भाया से राजीव कम्प्यूटर सेन्टर तक राजीव कम्प्यूटर संस्थान से पूर्व मे चलकर दक्षिण की आबादी को सम्मलित करते हुए करनसिंह भगेला तक करनसिंह भगेला से बाबूलाल जोशी वाली गली मे पश्चिम के भाग को सम्मलित करते हुए गायत्री स्कूल को सम्मलित करते हुए अनूप राजेश के मकान से रमेश फतेहपुरिया के मकान तक समस्त परिवारो को छोडते हुए यादव के मकान तक यादव के मकान के सामने से दक्षिण मे चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मलित करते हुए 132 के.वी. जीएसएस तक जीएसएस को सम्मलित करते हुए उसके पीछे से उत्तर की ओर चलकर समस्त पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए कान्ता खाती तक कान्ता खाती से भगवान रैगड व पोखर के उपर की समस्त आबादी को सम्मलित करते हुए आमीन के मकान तक आमीन के मकान से दक्षिण को चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए अशोक मूडौती वाले के नये मकान तक अशोक के मकान से सुमन बाबू से महेन्द्र चौधरी की तरफ को छोडते हुए मिलान विनोद भाया के मकान तक
8	8	विश्वकर्मा मन्दिर से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को सम्मलित करते हुए शनि देव मन्दिर के सामने कृष्णा मैरिज होम के कोने तक कृष्णा मैरिज होम के पीछे कुण्डा मन्दिर को सम्मलित करते हुए पश्चिम आबादी को सम्मलित करते हुए तुलसी पंजाबी की दुकान तक तुलसी पंजाबी की दुकान के सामने लोकचन्द दुकान व उत्तर की समस्त आबादी को सम्मलित करते हुए मोहन हलवाई की दुकान तक, मोहन हलवाई की दुकान से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम आबादी को सम्मलित करते हुए सुरेश पेस्सी वाले के मकान तक सुरेश के मकान से पूर्व की ओर चलकर उत्तर आबादी को सम्मलित करते हुए ओमशान्ति , दिनेश तिवाडी की दुकान तक दिनेश तिवाडी की दुकान से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मलित करते हुए स्टेट बैंक की पुलिया तक स्टेट बैंक पुलिया से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को सम्मलित करते हुए एक्सिस बैंक, जीतू सुन्दरावली वाले को सम्मलित करते हुए काशी पट्टौल पम्प तक काशी पट्टौल पम्प से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की आबादी के समस्त भाग को सम्मलित करते हुए मिलान विश्वकर्मा मन्दिर तक
9	9	जाटव चौक जगदीश पचौरी से पूर्व की ओर चलकर उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए टिमानी के मकान तक हरी पूर्व पार्शद, परता सैनी वाली कल्लू मास्टर बाखर, भजनी सैनी, नन्नु व बाबू पूर्व पार्शद के पास की अन्दर गली, रामगोपाल वैध की गली से ग्यारसा सैनी के मकान से चलकर पूरन बाबू, टीकम बाबू के मकान को छोडते हुए पदम कुन्दन से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए महादेव मन्दिर, हरी का बाग नहर तक, नहर से दक्षिण मे चलकर खेडली रोड जीएसएस के सामने की समस्त पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए अम्बेश कृषि फार्म तक अम्बेश कृषि फार्म से उत्तर की ओर चलकर पूर्व

		की समस्त आबादी को शामिल करते हुए जाटव चौक जगदीश पचौरी तक मिलान
10	10	जाटव चौक से अम्बेडकर रोड को चलकर सिताबी जाटव लालाराम की डेयरी आदि पश्चिम के समस्त भाग को सम्मिलित करते हुए बुआ पुरिया की जाटव की कॉलोनी बीमा वाले के पीछे से चलकर रमेश फतेहपुरिया के मकान अनूप राजेश के मकान तक के समस्त भाग को सम्मिलित करते हुए गायत्री स्कूल व तरफ को छोड़ते हुए बिजली विभाग के पीछे से सजय फौजदार से समस्त पूर्व की आबादी को सम्मिलित करते हुए राजेन्द्र गिररो के खेत की आबादी को सम्मिलित करते हुए विजय मास्टरनी के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम व पूर्व की आबादी को सम्मिलित करते हुए बालकृष्ण रंग पेन्ट वाले तक बालकृष्ण के मकान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल कर तुलसी राम, टीकम बाबू व ताराचन्द्र अध्यापक को सम्मिलित कर जाटव चौक तक
11	11	नेपाली मिया के घर से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए भजन खेराती के मकान तक भजन खेराती के मकान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए जगडका वाले, भगवान पटवारी के पीछे की आबादी को शामिल करते राजेन्द्र सिधल तक राजेन्द्र सिधल से टीकम फतेहपुरिया, ईश्वरी सोनी, प्रताप मास्टर को सम्मिलित करते हुए मिलान नेपाली मिया तक
12	12	मिश्री कुम्हार से पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए हास्पिटल रोड, सिटी स्कूल, नरेन्द्र पीटीआई की दुकान को सम्मिलित करते हुए रामस्वरूप गजिया की दुकान तक रामस्वरूप गजिया की दुकान के सामने प्यारे कुम्हार की दुकान को सम्मिलित करते हुए उत्तर की तरफ चलकर विष्णु होटल व समस्त पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए महेश टैन्ट हाउस तक महेश टैन्ट हाउस से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए आलमषाह वाले के मकान, मगतू कंस के मकान को सम्मिलित करते हुए दुदावल वाले के मकान तक दुदावल मकान से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए राजू चम्पल वाले तक राजू चम्पल वाले से मेला गेट के कोने पर गुप्ता ज्वैलर्स की दुकान तक गुप्ता ज्वैलर्स की दुकान से दक्षिण में चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए जगडका वालो के मकान तक जगडका वालो के मकान से रमन भूराका वाले, के मकान तक रोड सहारे समस्त आगे के मकानों को सम्मिलित करते हुए एवं रोषन लाल मास्टर, बूटोली वाले, हबीब के मकान हरी सिंह मेव चैपाल समस्त पश्चिम भाग को शामिल करते हुए धनेष जैन के सामने से मिलान मिश्री कुम्हार
13	13	श्रीचन्द्र गुड्डू के मकान से पूर्व की आबादी को सम्मिलित करते हुए चरण सिताबी के मकान तक चरण सिताबी के मकान के पीछे से चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए राजू व प्रहलाद तक (बदन खाती से द्वारका प्रसाद तक, द्वारका मास्टर से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते

		हुए रमांकान्त शर्मा तक रमांकान्त शर्मा से पश्चिम की ओर चलकर पुरुषोत्तम पण्डित, शशिकान्त अध्यापक, नरेश खाती को छोड़ते हुए) रघुवीर के मकान से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए लाल सिंह के मकान तक लालसिंह के मकान से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण व पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए चिम्मो चादौर के मकान के तक चिम्मो चादौर के मकान से बिरजू की बाखर को सम्मिलित करते हुए (मगतू की बाखर, तुलसी चादौर का मकान, बाबू लाल जोषी का मकान, को छोड़ते हुए) भजनलाल पटवारी, सोहनलाल के मकानों को जोड़ते हुए प्रकाश पूर्व पार्श्व की बैठक तक प्रकाश की बैठक से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को सम्मिलित करते हुए मिलान श्री चन्द गुड्डू के मकान तक
14	14	पोस्ट आफिस के पास जीतू नाई से पश्चिम की ओर चलकर सैयद के सामने से दर्शन पंजाबी व दक्षिण की आबादी को सम्मिलित करते हुए आयुब बैटरी वाला व मस्जिद तक मस्जिद से जगदीश पंजाबी वाला मकान तक व बबली मेव की दुकान से रूस्तम मिया, सुबान खां के सामने से चलकर समस्त पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए भूरी जाटव तक भूरी जाटव से पूर्व की ओर चलकर भजन पटवारी के पीछे मगतू की बाखर,, बाबू लाल जोशी का मकान को जोड़ते हुए, तुलसी चादौर का मकान तक तुलसी चादौर के मकान से उत्तर की ओर चलकर समस्त पश्चिम भाग को जोड़ते हुए मिलान पोस्ट के पास जीतू नाई तक।
15	15	कलुआ अर्जनवीस की गली में उतरकर रामजी लाल वकील के सामने से समस्त दक्षिणी भाग को सम्मिलित कर भगवान लोची के पुराने मकान को सम्मिलित करते हुए छुटन बडडन खाती तक व छुटन बडडन के सामने नरेश खाती के मकान को सम्मिलित करते हुए बदन खाती की गली की तरफ चलकर बदन खाती के मकान को सम्मिलित करते हुए द्वारका मास्टर से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए रमांकान्त शर्मा तक रमांकान्त शर्मा से पश्चिम की ओर चलकर पुरुषोत्तम पण्डित, शशिकान्त अध्यापक, के समस्त भाग जोड़ते हुए तरफ पूर्व को चलकर वैध नन्दी किशोर तक व समस्त उत्तरी भाग को शामिल करते हुए अमर सिंह ठाकुर के मकान से छज्जू पंच के कमरा तक की समस्त पूर्व व उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए एवं सामने हरी पूर्व पार्श्व, परता सैनी वाली कल्लू मास्टर बाखर, भजनी सैनी, नन्नू व बाबू पूर्व पार्श्व के पास की अन्दर गली, रामगोपाल वैध की गली से ग्यारसा सैनी के मकान से चलकर टीकम बाबू पूरन बाबू, के सामने से दक्षिण की ओर चलकर बड़े महोदव की बगीची को सम्मिलित करते हुए सोहन लाल गोपाल सैनी के मकान तक समस्त पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए बगीची नहर तक बगीची नहर से सैन्ट सोफिया स्कूल, रामअवतार उपाध्यक्ष घर को शामिल करते हुए सैयद को सम्मिलित करते हुए उत्तर में चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए पुष्पा सैन की प्लाट व गली के समस्त मकान, ओमप्रकाश शर्मा का मकान, अशोक का मकान, हरिओम का मकान, मुरारी सैनी का मकान एवं कचन की बैठक आदि को छोड़ते हुए कचन की बाखर, बाबू का

		मकान, चैडू सैनी के मकान को सम्मलित करते हुए मुरारी सैनी की प्लाट तक
16	16	दुर्जन की चक्की से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की समस्त आबादी को खैम चन्द तिवाडी तक खैमचन्द तिवाडी से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को सम्मलित करते हुए प्रेम पटवा तक प्रेम पटवा से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को सम्मलित करते हुए रवि वकील तक रवि वकील से महेन्द्र तहसीलदार, राजेन्द्र नाथ बाहम्ण की चौपाल व समस्त दक्षिणी भाग को सम्मलित करते हुए प्रहलाद का मकान , बालू कडेक्टर तक गली में उतरकर उत्तर का भाग सम्मलित करते हुए विषम्भर दुबे तक व यादवो को सम्मलित करते हुए प्रता यादव के सामने से बाबू पुजारी तक तरफ पश्चिम के भाग को सम्मलित करते हेतु महेश का मकान, यादव चन्द का मकान, शिखर गुधेनिया समस्त पश्चिम के भाग को सम्मलित करते डा. प्रेम व बबलेश को सम्मलित कर दुर्जन की चक्की तक।
17	17	हरी ओम कठूमरिया से खैमचन्द तिवाडी की ओर चलकर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए जगनी के नोहोरा तक व नन्नू सुक्ल के मकान को शामिल करते हुए सुन्दरावली वाले तक तरफ पूर्वी भाग को शामिल करते हुए सुरेश के मकान से भम्बो जोगी कल्लू धोबी, बिजेशियान की चौपाल भरत लाल का मकान व सोहन लाल पटवारी से जगनी माली तिवाडीयो की बाखर तरफ दक्षिण की समस्त आबादी को शामिल करते हुए मस्जिद के सामने से हरी ओम कठूमरिया तक
18	18	सुभाष सराफ के मकान से बाजार में चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए बाबू साईकिल वाले तक जगदीश मिश्रा, डाल सुनार दिनेश ऐरन व समस्त पश्चिमी भाग को सम्मलित करते हुए प्रहलाद शर्मा तक तरफ पश्चिम को चलकर किशन सोनी तक किशन सोनी से दक्षिण की ओर चलकर सूर्य प्रताप के मकान से तरफ दक्षिण को चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल कर छुट्टन शर्मा के मकान तक छुट्टन के मकान से पिलू का मन्दिर तक एव अजी-बजी मित्तल के मकान से हरी राम आर्चाय , गोपाल नम्बरदार, श्याम लाल पुजारी, व तरफ पश्चिम के समस्त भाग को सम्मलित करते हुए महेश शर्मा को शामिल करते हुए रामजी लाल के नौहोर के शामिल करते हुए जगदीश जोषी तक व राम हेत जोशी को सम्मलित कर व समस्त पूर्वी को भाग को सम्मलित कर नाईयो के चौक की ओर चलकर गंगाचरण गोयल तक व बृहमानन्द ठेकेदार, डा. गोविन्द शर्मा, किशन चैपाडा से खुटटीयो की हवेली एवं खुटटीयो की हवेली बृज भूषण ड्राईवर के मकान से चलकर तरफ उत्तरी की आबादी को शामिल करते हुए बोर्डिंग हाउस के पीछे से दीन दयाल तक व प्रमोद के मकान तक प्रमोद के मकान से उत्तर की ओर से चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए मिलान सुभाष सराफ तक।
19	19	विजय कुम्हार के मकान से पूर्व की ओर चलकर अशोक पंजाबी की ओर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए जफर कुरेशी तक जफर कुरेशी से दक्षिण की ओर चलकर सुखदेव पंजाबी तक सुखदेव पंजाबी के मकान से पूर्व की ओर चलकर उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए डा. मदन के मकान तक डा. मदन के मकान से पूर्व की ओर चलकर राजेन्द्र अरोडा के मकान तक राजेन्द्र अरोडा से उत्तर की ओर

		चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए लख्मी अध्यापक के मकान तक लख्मी अध्यापक के मकान से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण की समस्त आबादी को शामिल करते हुए मिलान विजय कुम्हार के मकान तक
20	20	नन्नू मनिहार के मकान से चल कर मुख्य बाजार से चलते हुए तरफ दक्षिण की आबादी को सम्मिलित करते हुए सुरेश अलवारिया की दुकान तक, सुरेश अलवारिया की दुकान से चलते हुए हास्पिटल रोड तरफ उत्तरी की आबादी को सम्मिलित करते हुए खखावली वालो की हवेली तक दीपचन्द की चक्की से चलते हुए तरफ उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए राजेन्द्र (रूल) के मकान तक, दिनेश कटारा के मकान से चलते हुए उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए वापिस नन्नू मनिहार तक।
21	21	जवाहर मार्केट से पूर्व की ओर चलकर खैमचन्द सब्जी वाले,यादराम पटवा आदि व दक्षिण की आबादी को सम्मिलित करते हुए हेमरवाले तक हेमरवाले से दक्षिण मे चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल कर बाबू हैवासी तक बाबू से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए विष्णु तक विष्णु की दुकान से दक्षिण मे चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए विक्रम की दुकान तक विक्रम की दुकान से पश्चिम मे चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए जलेबी चैक स्थित महादेव मन्दिर तक महादेव मन्दिर से उत्तर मे चलकर पूर्व की आबादी को सम्मिलित करते हुए आनन्द भवन, गुरुद्वारा को सम्मिलित करते हुए मिलान जवाहर मार्केट तक
22	22	मोरी पर छीतर की दुकान से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए सुभाष जमादार के मकान तक सुभाष जमादार के मकान से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए मदन गुसाई की दुकान तक मदन गुसाई की दुकान से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए रामअवतार उपाध्यक्ष, मूडौती मार्केट को शामिल करते हुए मानक की दुकान तक मानक की दुकान से पूर्व की ओर चलकर उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए मिलान छीतर की दुकान तक
23	23	रमेश नाई की दुकान से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए सुका कोली तक सूका कोली से अन्दर गली मे चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए नन्नू का मकान, नेमी का मकान, नेमी के मकान से परमा के मकान को सम्मिलित करते हुए बाबू के मकान तक, बाबू के मकान से दक्षिण मे चलकर चन्द्रपाल खटीक तक चन्द्रपाल खटीक को शामिल करते हुए बालमुकन्द, रामजीलाल आदि रतनलाल तक अन्दर गली मे चलकर दक्षिण की आबादी को सम्मिलित करते हुए मंगल एडवोकेट, की गली को शामिल करते हुए हुकम कोली की तरफ को सम्मिलित करते हुए हुकम कोली के मकान व दुकान तक हुकम कोली की दुकान से सामने सुनारो के मन्दिर तक सुनारो के मन्दिर से पूर्व की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को सम्मिलित करते हुए सैनी चौपाल तक सैनी चौपाल से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए कायस्थो की

		हवेली को सम्मिलित करते हुए रामअवतार मित्तल के मकान तक रामअवतार मित्तल के मकान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए भगवान सुनार तक भगवान सुनार से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की आबादी को सम्मिलित करते हुए मिलान रमेश नाई तक
24	24	डीग रोड चुगी नाके से षास्त्री षाला की ओर चलकर तरफ दक्षिण का भाग षामिल कर प्रभु सैनी तक व चौपाल के सामने गली में चलकर प्रकाष सैनी, रामस्वरूप व उत्तर की आबादी को षामिल कर बृजलाल कोली तक छगन कोली कटरा को शामिल कर बाबू मामराज के मकान से गली में चलकर तरफ उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए नदबई रोड सोहन लाल पटवारी तक व चुगी की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल कर चुगी नाके तक
25	25	होली गेट से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए सोहनलाल पटवारी वाली गली में अन्दर चल कर तरफ दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए पीतम के मकान तक पीतम के मकान से मंगल कोली वाली गली में चलकर दिगम्बर कडेक्टर वाली गली में चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए जगदीश प्रसाद, यादराम, आदि पप्पू तक पप्पू के मकान से दक्षिण की ओर चलकर समस्त पूर्व की आबादी को सम्मिलित करते हुए भगवान स्वरूप मास्टर तक भगवान स्वरूप मास्टर के आगे से चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए मिलान होली गेट तक
26	26	कल्लू बगीची (होली गेट) के पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए देवकीनन्दन, जगनीराम, बाबूलाल के मकान को शामिल करते हुए शिव कुमार के मकान तक शिव कुमार के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए श्यामा पण्डित, बृजकिशोर को सम्मिलित करते हुए पूरन नम्बदार तक पूरन नम्बरदार से कचंन की बैठक, मुरारी सैनी का मकान, हरिओम का मकान, अशोक का मकान, ओमप्रकाश का मकान पुष्पा सैन की प्लाट व गली आदि को जोड़ते हुए बन्ध की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए बर्फ फैक्ट्री तक बर्फ फैक्ट्री के सामने से उत्तर की ओर चलकर बाबू के कुआ नदबई रोड तक बाबू के कुआ नदबई रोड से वापसी उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए सारंगपुर रोड भारत गैस गोदाम तक भारत गैस गोदाम से सुन्द्रावली रोड श्मशान को सम्मिलित करते हुए सिद्व की धर्मशाला तक सिद्व की धर्मशाला के पीछे से निकलकर नत्थो मास्टर व होशियार तक के समस्त पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए होशियार मास्टर से मिलान कल्लू की बगीची तक।
27	27	अमरदासा मन्दिर के पीछे से निकलकर रेलवे लाईन तक की समस्त दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए रेलवे लाईन से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए कृषि उपज मण्डी, कृषि उपज मण्डी से पूर्व की ओर चलकर दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए महेश मनोज सैनी के मकान तक महेश मनोज सैनी के मकान से दक्षिण की ओर चलकर सिद्व धर्मशाला के पीछे होते हुए

		उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए बीदू मास्टर तक (सिद्व धर्मशाला व नत्थी मास्टर से होशियार के मकान तक के समस्त पूर्व की आबादी को छोड़ते हुए) बीदू मास्टर से पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए शिक्षा आई.टी.आई. तक शिक्षा आई.टी.आई. से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की आबादी को सम्मिलित करते हुए चुगी के सामने तक, चुगी के सामने से उत्तर की ओर चलकर विनोद वैश्य के मकान को शामिल करते हुए अमरदासा मन्दिर की ओर चल पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए मिलान अमरदासा मन्दिर पर।
28	28	अगंद की दुकान से पूर्व की ओर चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए गंगा वाटिका तक गंगा वाटिका के पीछे जगदीष को सम्मिलित करते हुए हनुमान मन्दिर अमरदासा पोखर के ऊपर से होते हुए समस्त पश्चिम भाग को सम्मिलित करते हुए रेलवे फाटक तक रेलवे फाटक के सहारे चलते हुए खोडकी मन्दिर व पोखर के भाग को सम्मिलित करते हुए पोखर के ऊपर से खेतों के रास्ते से निकलते हुए भगत वाटर सप्लायर की गली के दोनों तरफ के मकानों को सम्मिलित करते हुए सुनील सर्राफ की डेयरी तक सुनील की डेयरी से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए मिलान अगंद की दुकान तक
29	29	रामचन्द्र से पूर्व की ओर चलकर मूली पटैल का कमरा दोजी सैनी की दुकान मुरारी खाती के मकान को सम्मिलित करते हुए दम्मो नेता, रूपी आदि मकानों को सम्मिलित करते हुए उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए कलुआ पम्मी के मकान तक कलुआ पम्मी के मकान से पश्चिम की ओर चलकर जमुना खाती की दुकान, योगेश पार्शद के मकान की तरफ समस्त दक्षिण की आबादी सम्मिलित करते हुए महाराज सिंह की दुकान व मकान तक महाराज सिंह के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए नरेश सैनी तक नरेश सैनी के सामने ठुकरी वाली गली में चलकर समस्त दक्षिण भाग को सम्मिलित करते हुए मवासी सैनी, हरचन्द्र खटीक तक व गली में चलकर दयाली हरिजन, हरी के मकान को सम्मिलित करते हुए रामजीलाल भोला को सम्मिलित करते हुए बुद्वी कोली,छंगा कोली, धर्मी आदि व पूर्व की समस्त आबादी को सम्मिलित करते हुए मिलान रामचन्द्र तक
30	30	पप्पूआ हरीजन के मकान से तरफ दक्षिण को चलकर परभाती हरिजन तक पूर्वी की आबादी को सम्मिलित करते हुए परभाती से रामजी लाल हरीजन प्रभु हरीजन, मिरासी हरीजन को सम्मिलित कर ठुकरी वाली गली में तरफ उत्तर की आबादी को शामिल कर नन्नू खटीक के मकान से तरफ उत्तर की आबादी को शामिल कर घीसा माली तक व घीसा माली से पश्चिम की आबादी को शामिल कर बिहारी माली तक व बिहारी से तरफ दक्षिण की आबादी को शामिल पर पप्पूआ हरीजन तक।
31	31	मन्दिर वाली गली बदले नाई की दुकान से पूर्व की ओर चलकर जगदीष पण्डा दीनदयाल खादी भण्डार वाले भगवान भोता को शामिल करते हुए समस्त दक्षिण भाग की आबादी को सम्मिलित करते हुए गिर्राज चाय की दुकान तक गिर्राज के पीछे से पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए भगवान

		की टाल, दीनदयाल के पत्थर की टाल, रामअवतार टाकिज को शामिल करते हुए रामअवतार हैवासी की दुकान तक रामअवतार हैवासी से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए मिलान बदले नाई तक
32	32	कैलाश मिश्रा की टाल से पश्चिम की ओर चलकर समस्त उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए सूरज शर्मा की दुकान तक सूरज शर्मा की दुकान से उत्तर की ओर चलकर बस स्टैण्ड व बस स्टैण्ड के पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए पुरानी खण्डेलवाल धर्मशला को सम्मिलित करते हुए सुन्दरावली वाले भगवान सिंह मास्टर के मकान तक सुन्दरावली वाले भगवान सिंह मास्टर के बगल की गली में चलकर समस्त उत्तरी भाग को शामिल करते हुए टैगोर पब्लिक स्कूल तक टैगोर पब्लिक स्कूल के पीछे से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए महेन्द्र जागिड को सम्मिलित करते हुए भूपन खटीक तक भूपन खटीक से मूडिया रोड सडक पर चलकर समस्त पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए मिलान कैलाश मिश्रा की टाल पर
33	33	जगदीश वैश्य की दुकान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी को सम्मिलित करते हुए सुभाष तेली के मकान तक सुभाष तेली से दक्षिण को ओर चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए टैगोर पब्लिक स्कूल के पीछे से रज्जो बिजली वाले के मकान तक रज्जो बिजली वाले के मकान से उत्तर की ओर चलकर सुगन आदि के मकान को सम्मिलित करते हुए खेतो के रास्ते सीधा बंजारा कॉलोनी में समस्त बंजारा कॉलोनी को शामिल करते ऊपर से रास्ते होते हुए भगत वाटर सप्लायर की कॉलोनी को छोड़ते हुए बृजभूषण मास्टर के मकान को शामिल करते हुए बृजभूषण मास्टर के मकान से समस्त दक्षिण भाग को सम्मिलित करते हुए वंशो गुर्जर के मकान तक वंशो गुर्जर के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को शामिल करते हुए मिलान जगदीश वैश्य की दुकान तक
34	34	डाक बगला रोड पर हीरा दरगन की दुकान से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए सुमन के मकान तक सुमन के मकान से अनार देवी परिसर को छोड़ते हुए दक्षिण की आबादी को सम्मिलित करते हुए रामस्वरूप सैनी तक रामस्वरूप सैनी से दक्षिण की ओर चलकर भगवान सिंह गुर्जर, प्यारे सैनी, मन्दिर खण्डेलवाल समाज, धर्मशाला बस स्टैण्ड के पश्चिम भाग तक की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुए द्वारका भगत की दुकान तक द्वारका भगत की दुकान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी को शामिल करते हुए मिलान हीरा दरगन की दुकान तक
35	35	सीकरी रोड ब्राह्मण धर्मशाला से तरफ उत्तर में चलकर समस्त पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए रेलवे फाटक तक रेलवे फाटक से पूर्व की ओर दक्षिण की आबादी को शामिल करते हुए सम्पूर्ण कलन्दर कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए अनार देवी स्कूल परिसर को सम्मिलित करते हुए सुमन के मकान के सामने मेदी खान के मकान तक मेदी खान के मकान से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम की आबादी को सम्मिलित करते हुए अग्रवाल धर्मशाला व विवेक शर्मा की दुकान तक विवेक शर्मा से

		पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी की आबादी को सम्मिलित करते हुए मिलान ब्राह्मण धर्मशाला तक
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नगर (भरतपुर)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।